

ब्रैम्पटन के सर्दियों के मौसम के कार्य

इस बारे में जानकारी कि जब बर्फ पड़ती है तो सिटी क्या करती है:

- ✓ सबसे पहले, कर्मिंदल मुख्य सड़कों पर नमक बिछाता है और मशीन से बर्फ हटाता है। ये वे मुख्य सड़कें हैं, जिन पर ट्रैफिक बहुत अधिक होता है, ब्रैम्पटन ट्रांजिट/ज़ूम रूट पर हैं या उन पर पील का अलग स्कूल अथवा पब्लिक स्कूल है।
- ✓ जब मुख्य सड़कों को साफ कर दिया जाता है, तो कर्मिंदल रिहायशी स्ट्रीट्स पर नमक बिछाना शुरू करता है। ये आपके आसपास की स्ट्रीट्स हैं। रिहायशी स्ट्रीट्स:
 - उन पर केवल तभी बर्फ हटाने की मशीन चलाई जाती है, जब किसी सिंगल तूफान में कम से कम 7.5 से.मी. (3 इंच) बर्फ गिरी हो। जो कि आईस हॉकी की डिस्क (हॉकी पक) का व्यास होता है अथवा क्रिकेट की गेंद से थोड़ी अधिक मोटी होती है।
 - मुख्य सड़कों की तरह उन पर नंगी सख्त सतह पर मशीन नहीं चलाई जाती। ज़मीन पर थोड़ी-बहुत बर्फ होना सामान्य बात है, चाहे स्ट्रीट पर मशीन चलाई गई हो।
- ✓ कर्मिंदल उन पार्कों में रेक्रीएशनल ट्रेल्स और उन पगडंडियों पर बर्फ हटाने की मशीन चलाता है और रेत बिछाता है, जो:
 - मुख्य सड़कों पर हैं
 - ब्रैम्पटन ट्रांजिट/ज़ूम बस रूट पर हैं
 - आपकी प्रॉपर्टी के पीछे सिटी पार्क या फैसिलिटी के सामने हैं
 - पगडंडी के किनारे (पगडंडी और सड़क के बीच में घास वाले कोई बुलेवार्ड नहीं)

अन्य सभी पगडंडियों की जिम्मेदारी प्रॉपर्टी के मालिक की होती है

कर्मिंदल का उद्देश्य बर्फ गिरना बंद होने के बाद, 24 घंटे के अंदर सभी सड़कों, पगडंडियों और ट्रेल्स को साफ करना होता है। यदि मौसम संबंधी स्थितियां तीव्र होती हैं तो इसमें अधिक समय भी लग सकता है।

एक निवासी के तौर पर, आप इस प्रकार बदलाव ला सकते हैं:

- ✓ बर्फ गिरने के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे तक अपने घर के सामने और किनारे की पगडंडी को साफ करें।
- ✓ अपनी प्रॉपर्टी से बर्फ हटाकर सड़क या पगडंडी पर न फेंके।
- ✓ कूड़ा-ककट इकट्ठा करने वाले दिन, अपने ड्राइववे के नीचे या किनारे के बिल्कुल पीछे बुलेवार्ड पर अपने कार्टों के लिए जगह छोड़ें। उन्हें पगडंडी अथवा सड़क पर न रखें।
- ✓ जब बर्फ गिर रही हो, तो स्ट्रीट में गाड़ी पार्क न करें, जब तक कि इस पर नमक न बिछाया जाए या मशीन से बर्फ न हटाई जाए। जब किसी स्ट्रीट पर कारें पार्क की होती हैं तो कर्मिंदल सही ढंग से स्ट्रीट की देखभाल नहीं कर पाता।

जुड़े रहें!

- ✓ बर्फ हटाने की 24/7 अपडेट्स सहित, सर्दी संबंधी जानकारी के लिए www.brampton.ca/snow पर जाएं।
- ✓ Twitter पर @CityBrampton को फॉलो करें और Facebook पर City of Brampton को लाइक करें